

“सुभाषिणी देवी पुरस्कार - 2019” हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

भगत फूल सिंह महिला वि.वि., खानपुर कलां की ओर से द्वितीय बहन सुभाषिणी देवी पुरस्कारों हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं. यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (दिनांक 08 मार्च 2019) पर दो ऐसी महिलाओं को दिए जायेंगे जिन्होंने हरियाणा के समाज व विशेषकर महिलाओं के उत्थान में उल्लेखनीय कार्य किये हैं.

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि है - 25 फ़रवरी 2019.

आवेदन व पत्राचार के लिए पता:

निदेशिका

महिला अध्ययन केंद्र

C/O

रजिस्ट्रार

भगत फूल सिंह महिला वि.वि.

खानपुर कलां - 131305

सोनीपत, हरियाणा

Phone - 01263-283038 / 9416141965 / 8307537728

Email - wsc.bpsmv@gmail.com

"सुभाषिणी देवी पुरस्कार" सम्बंधित जानकारी तथा "आवेदन फॉर्म" की रूपरेखा नीचे दी गयी है.

बहन सुभाषिणी देवी पुरस्कार-

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय महिलाओं को ज्ञान व कौशल द्वारा सशक्त करने के उद्देश्य से 2006 में स्थापित हुआ. यह एक ऐसे वट वृक्ष का नामकरण था, जिसका बीज वर्ष 1936 में अमर बलिदाता भगत फूल सिंह जी के करकमलों से "कन्या गुरुकुल" के रूप में बोया गया. महिला सशक्तिकरण का यह प्रयास उस समय हुआ जब लगभग पूरा ग्रामीण समाज लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ हुआ करता था. भगत जी की शहादत (1942) के पश्चात इसे पुष्पित-पल्लवित करने की ज़िम्मेवारी उनकी सुपुत्री सुभाषिणी ने संभाली, जिनकी बदौलत आज विभिन्न विषयों के 16 विभाग, 5 कॉलेज, 2 क्षेत्रीय केंद्र, 2 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व वि-वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किये गए 2 महत्वपूर्ण केंद्र महिला वि.वि. की शोभा बढ़ाते हैं. महिला सशक्तिकरण की ओर अगला कदम बढ़ाते हुए वि.वि. की ओर से

पद्मश्री सुभाषिणी जी (1914-2003) के नाम पर हरियाणा में समाज व विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिये उल्लेखनीय योगदान करने वाली किन्ही दो महिलाओं को प्रति वर्ष पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है.

उद्देश्य - सामाजिक कार्यों के लिये प्रदेश की महिलाओं को प्रोत्साहित करना.

योग्यता - इन पुरस्कारों के लिये किसी भी उम्र की वे महिलायें आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने हरियाणा में रहते हुए इस प्रांत के समाज व विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिये कार्य किया है.

पुरस्कार - नकद राशि 11000 रूपए, स्मृति चिन्ह, शाल, व प्रशस्ति पत्र.

आवेदन पत्र
सुभाषिणी देवी पुरस्कार - 2019
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय

नाम/Name:

फोन (मोबाइल) नंबर/Phone:

उम्र (Age):

शिक्षा (Educational Qualification):

व्यवसाय (Occupation):

वर्तमान कार्यक्षेत्र (Current Employment):

कार्य अनुभव (Work Experience):

समाज के लिये किये कार्यों का विस्तृत ब्यौरा (Works done for society in detail):

महिलाओं के लिये किये कार्यों का विस्तृत ब्यौरा (Works done for women in detail):

रूचि (Interests):

पत्राचार हेतु पता(Correspondence Address):

स्थायी पता (Permanent Address):

अनुमोदक (Reference)- नाम, व्यवसाय, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल
